

XIHY-202301

विषय : लेखा शास्त्र

समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 90

निर्देश : (1) सभी प्रश्नों को हल कीजिये।

(2) प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

(3) प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर की शब्द सीमा- 40 शब्द है।

(4) प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प है। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है।

(5) प्रश्न क्रमांक 20 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा- 100 शब्द है।

(6) प्रश्न क्रमांक 25 एवं 26 अतिदीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द/वाक्य में लिखिये-

प्रश्न-1. लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेनदेन को किस रूप में मापती है? (1)

प्रश्न-2. लाभ कमाने की इच्छा से मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक वैद्य उद्यम क्या कहलाता है? (1)

- प्रश्न-3. लेखांकन की किसी एक आधारभूत मान्यता का नाम लिखिये।
- प्रश्न-4. व्यावसायिक सौदे की कोई एक विशेषता लिखिये। (1)
- प्रश्न-5. आय की नगद प्राप्ति हेतु कौन-सा प्रमाणक बनाया जाता है? (1)
- प्रश्न-6. किस प्रकार की सम्पत्तियों के लिये स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाना उपयुक्त होता है? (1)
- प्रश्न-7. 'आयोजन' का एक उदाहरण लिखिये। (1)
- प्रश्न-8. व्यापार खाते के विकल्प पक्ष में कौन-से व्ययों को लिखा जाता है? (1)
- प्रश्न-9. वित्तीय विवरणों में क्या-क्या शामिल है? (1)
- प्रश्न-10. लेखांकन को परिभाषित कीजिये। (3)
- प्रश्न-11. उदरत खाता क्या है? (3)
- प्रश्न-12. तलपट की कोई तीन विशेषताएँ लिखिये। (3)
- प्रश्न-13. निर्माण खाते और व्यापार खाते में कोई तीन अंतर लिखिये। (3)
- प्रश्न-14. कारण सहित लिखिये कि निम्नलिखित व्यय पूंजीगत है अथवा आगमगत: (3)
- (i) आयात की गई मशीन पर चुकाया गया सीमा कर
- (ii) कामगारों को दी गई मजदूरी
- प्रश्न-15. टिप्पणी लिखिये- (4)
- (i) प्रमाणक (ii) आहरण

अथवा

बहीखाता एवं लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट कीजिये। (कोई चार)

- प्रश्न-16. एक व्यवसायी के निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण ज्ञात कीजिये- (4)
- | | |
|--|-----------|
| (i) रोकड़ से व्यापार प्रारम्भ किया | 70000 रु० |
| (ii) उधार माल खरीदा | 18000 रु० |
| (iii) उधार माल बेचा (लागत 10000 रु०) | 12000 रु० |
| (iv) लेनदारों को पूर्ण भुगतान में चुकाये | 17500 रु० |

अथवा

धर्मेन्द्र ने अपना व्यवसाय 1 जनवरी 2018 को 400000 रु० की पूंजी से प्रारम्भ किया।
31 दिसम्बर 2018 को उसकी सम्पत्तियाँ 700000 रु० तथा दायित्व 200000 रु० के थे।
अंतिम पूंजी तथा लाभ की गणना कीजिये।

प्रश्न-17. निम्नलिखित व्यवहारों के लिये जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये-

(4)

2018		रु०
1 जनवरी	रोकड़ से व्यापार प्रारम्भ किया	1,00,000
15 जनवरी	रमेश से माल खरीदा	25000
20 जनवरी	कमीशन नगद मिला	2000
30 जनवरी	वेतन, सुरेन्द्र को दिया	8000

अथवा

मनीष की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों का लेखा कीजिये-

2019		रु०
1 मार्च	रोकड़ से व्यापार प्रारम्भ किया	50,000
5 मार्च	नगद माल खरीदा	10,000
10 मार्च	गाड़ी भाड़ा दिया	500
25 मार्च	गिरीश को किराया दिया	5000

प्रश्न-18. निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2019 को तलपट तैयार कीजिये-

(4)

बिके हुए माल की लागत - 150,000 रु०

देनदार-	60,000 रु०	लेनदार -	30,000 रु०
सम्पत्तियाँ -	50000 रु०	व्यय -	20000 रु०
बिक्री-	200000 रु०	पूंजी -	91000 रु०
आहरण-	1000 रु०	प्रारम्भिक रहतिया -	60000 रु०
अंतिम रहतिया-	40000 रु०		

अथवा

निम्नलिखित शेषों से 31 दिसम्बर 2018 को तलपट बनाइये-

रोकड़ खाता 2100 रु, क्रय खाता 10500 रु, विक्रय खाता 15100 रु,
क्रय वापसी खाता 500 रु, विक्रय वापसी खाता 200 रु, फर्नीचर खाता 2000 रु,
बैंक अधिविकर्ष 1000 रु, विनियोग 1800 रु, अंतिम स्कंध 2500 रु।

- प्रश्न-19.** 1 जून 2019 को अ ने ब को 1000 रु का माल उधार बेचा और इस तिथि को तीन माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। ब ने इस विपत्र को स्वीकृत कर अ को लौटा दिया। इन व्यवहारों का लेखा अ एवं ब के जर्नल में कीजिये।

(4)

अथवा

X ने Y को 1 जनवरी 2019 को 5000 रु के मूल्य का माल उधार बेचा। Y ने 4 जनवरी को 2000 रु नगद दिये तथा शेष 3000 रु के लिये X से एक तीन माह का विपत्र लिखने की प्रार्थना की। X ने उक्त तिथि को 3000 रु का विपत्र Y पर लिखा। Y ने इसे स्वीकृत कर X को लौटा दिया। देय तिथि पर Y ने विपत्र का भुगतान कर दिया। उक्त व्यवहारों को X के जर्नल में लिखिये।

- प्रश्न-20.** लेखांकन के किन्हीं दो आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये।

(6)

अथवा

देहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और विशेषताएँ लिखिये।

- प्रश्न-21.** निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को बैंक समाधान विवरण बनाइये-

(6)

- (i) रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 9750 रु
- (ii) 25 मार्च को 500 रु का एक चैक बैंक में जमा कराया जिसका संग्रहण 2 अप्रैल को हुआ।
- (iii) 26 मार्च को आशीष को जारी किया गया 1000 रु का चैक भुगतान हेतु 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया।
- (iv) एक ग्राहक ने 400 रु सीधे बैंक में जमा किये जिसकी सूचना 5 अप्रैल को प्राप्त हुई।
- (v) बैंक ने 700 रु बीमा प्रीमियम के दिये।

- (vi) बैंक ने 280 रु ब्याज के पास बुक में जमा किये।
- (vii) पास बुक में 160 रु बैंक व्ययों के डेबिट हैं। उपरोक्त (v), (vi) और (vii) का कोई लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया।

अथवा

30 जून 2016 को शांतनु एण्ड कम्पनी की पास बुक का अधिविकर्ष 1800 रु है। निम्न सूचनाओं से उनका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिये-

- (i) 8000 रु के चैक संग्रह हेतु भेजे गये, किन्तु उनका संग्रहण 30 जून तक नहीं हो पाया।
- (ii) 2500 रु के चैक निर्गमित किये, किन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए।
- (iii) बैंक ने 100 रु अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया।
- (iv) 800 रु बैंक में सीधे जमा किये, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ।

प्रश्न-22. 1 जनवरी 2015 को एक मशीन 18400 रु में खरीदी तथा उसकी स्थापना में 1600 रु खर्च किये। इस यंत्र पर घटती किस्त पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष 10% ह्रास अपलेखित करने का निश्चय किया गया। पहले तीन वर्षों के लिए मशीनरी खाता बनाइये। खाते 31 दिसम्बर को बंद किये जाते हैं।

(6)

अथवा

एक यंत्र पर दो वर्ष तक 10 प्रतिशत की दर से स्थायी किस्त पद्धति से मूल्य ह्रास लगाया गया जो 1 जनवरी 2016 को 10000 रु में क्रय किया गया था। 1 जनवरी 2018 को ह्रासमान शेष पद्धति को यंत्र की क्रय तिथि से ही अपनाने का निश्चय किया गया। मूल्य ह्रास की दर 12 प्रतिशत रखी गई। 2016 से 2018 तक का यंत्र खाता बनाइये।

प्रश्न-23. सामान्य संचय तथा विशिष्ट संचय में अंतर स्पष्ट कीजिये। (कोई चार)

(6)

अथवा

ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति एवं घटती शेष पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिये।
(कोई चार)

प्रश्न-24. नायर की पुस्तकों से लिये गये निम्नलिखित शेषों से 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तैयार कीजिये-

प्रारम्भिक स्कंध	5000 रु०,	क्रय	35000 रु०
विक्रय	58000 रु०,	विक्रय वापसी	1000 रु०
मजदूरी	600 रु०,	गाड़ी भाड़ा	200 रु०
बट्टा	150 रु०,	जलपान व्यय	350 रु०
वेतन	1500 रु०	कमीशन (क्रेडिट)	300 रु०
अंतिम स्कंध	3700 रु०		

अथवा

निम्नलिखित बाकियों से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिये-

सकल लाभ 16200 रु०, वेतन 2400 रु०, विक्रय पर भाड़ा रु० 270, छपाई रु० 130, कार्यालय व्यय 400 रु०, किराया (क्रे०) 200 रु०, बट्टा (डे०) 100 रु०, पूंजी 60000 रु०, लेनदार 5000 रु०, देय विपत्र 900 रु०, भवन 20000 रु०, मशीनरी 18000 रु०, देनदार 19000 रु०, प्राप्य विपत्र 5000 रु०, रोकड़ 6000 रु०, फर्नीचर 1000 रु०, बैंक अधिविकर्ष 15000 रु०, तथा अंतिम स्कंध 25000 रु०।

प्रश्न-25. 1 मार्च 2019 को A ने B को 5000 रु० का माल बेचा। B ने एक विपत्र तीन माह की अवधि का स्वीकार किया। A ने इस विपत्र को 4 मार्च 2019 को 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बट्टे पर बैंक से भुना लिया। देय तिथि पर विपत्र अनादरित हो गया और बैंक ने 15 रु० निकराई के चुकाए। B ने 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज, नोटिंग व्यय तथा विपत्र की राशि सहित एक तीन माह का नया विपत्र लिखने की प्रार्थना की, जिसे A ने मान्यकर एक नया विपत्र B पर लिख दिया जिसे B ने स्वीकार कर A को लौटा दिया। देय तिथि पर इस नये विपत्र का भुगतान हो गया। उक्त व्यवहारों को A के जर्नल में लिखिये।

अथवा

उपरोक्त व्यवहारों के आधार पर B के जर्नल में लेखा कीजिये।

प्रश्न-26. हरि प्रसाद के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त वर्ष का व्यापार लाभ-हानि खाता तथा उस दिन का चिट्ठा तैयार कीजिये-

(8)

तलपट

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भिक स्कंध	10000	पूंजी	75000
क्रय	20000	लेनदार	5000
गाड़ीभाड़ा	500	कमीशन	1800
मजदूरी	2000	क्रय वापसी	200
बीमा	800	विक्रय	33000
वेतन	4200		
सामान्य व्यय	1500		
विक्रय वापसी	1000		
मशीन	26000		
भवन	40000		
रोकड़	9000		
	<u>115000</u>		<u>115000</u>

समायोजन- (i) मशीन पर 10 प्रतिशत ह्रास लगाईये। (ii) पूर्वदत्त बीमा 200 रु०
(iii) अदत्त मजदूरी 100 रु० (iv) अंतिम स्कंध 30000 रु०।

अथवा

निम्नांकित तलपट से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वित्तीय विवरण

तलपट			
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आहरण	2000		
सामान्य व्यय	4000	पूंजी	30000
भवन	41000	लेनदार	15000
मशीन	9000	विक्रय	62000
प्रारम्भिक स्टॉक	16000	कमीशन	1000
कोयला एवं शक्ति	2000	देय बिल	14000
मजदूरी	1000	बैंक अधिविकर्ष	13000
देनदार	6000	ऋण	18000
क्रय	45000		
मोटर	25000		
रोकड़	2000		
	<u>153000</u>	<u>153000</u>	

समायोजन - (i) अंतिम स्टॉक 25000 रु० (ii) अप्राप्य ऋण के 500 रु० अपलेखित कीजिये। (iii) उपार्जित कमीशन 300 रु० (iv) मालिक ने निजी उपयोग के लिये 700 रु० का माल निकाला।